

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 31—नवम्बर 6, 2015 (कार्तिक 9, 1937)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31—NOVEMBER 6, 2015 (KARTIKA 9, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद—500 052, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

सं.—15011/10/2015—स्था.—गृह मंत्रालय के अनुमोदनानुसार पत्र संख्या 23011/39/2015—पीटी दिनांक 09.07.2015 के अनुसरण में श्री श्रीकृष्णा तिवारी, वैज्ञानिक—बी' केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक (बेतार) के पद पर वेतनमान पे—बैंड—3, रूपए 15,000—39,100/— + रूपए 6,600/— के ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 28 सितम्बर, 2015 (पूर्वाहन) से 01 वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले लागू हो, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर लोकहित के लिए, गृह मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 18/04/51—स्था. (बी) दिनांक 01.09.1958 के तहत नियुक्त किया जाता है। अधिकारी के उक्त पद के लिए समय—समय पर भारत सरकार के नियमों के तहत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का हक होगा।

2. उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने पैतृक वेतनमान या अकादमी में प्रतिनियुक्ति के पद पर यथा पे—बैंड—3, रूपए 15,600—39,100/— + ग्रेड पे रूपए 6,600/— संबद्ध भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत लागू होने वाले अन्य भत्तों के सहित

ले सकते हैं। अधिकारी द्वारा इस विकल्प का सुनिश्चयन पद पर उनकी नियुक्ति के एक महीने के भीतर कर देना चाहिए और एक बार सुनिश्चित होने पर यह अंतिम एवं बाध्य होगा।

अरुणा बहुगुणा,
निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014/डी-349—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं:-

सर्वश्री

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | बालु राम जाट
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 10.09.2015 (अपराहन) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर |
| 2. | मुकेश कुमार शर्मा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 30.09.2015 (अपराहन) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |

ह/- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/60/2014/डी-117—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है :-

सर्वश्री

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | श्रीकृष्ण
लेखापरीक्षा अधिकारी | 30.09.2015 (अपराहन) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त |
|----|----------------------------------|---|

ह/- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 सितम्बर 2015

सं. ए-31013/02/2014-स्था. II—संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर, राष्ट्रपति जी महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में वेतन बैंड-3, रु.15,600-39,100 तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में उप महानिदेशक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए तारीख से मूल पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	नाम सर्व/श्री	स्थायीकरण की तारीख
1.	शिव स्वरूप त्रिपाठी	30.10.2014
2.	रवीन्द्र सिंह जामवाल	01.10.2014
3.	अतुल मैन्दोला	30.04.2014
4.	सुनील राठी	30.05.2014
5.	राकेश सिंह	22.10.2014
6.	चंद्रमणि पाण्डेय	02.05.2014
7.	अमित श्रीवास्तव	11.04.2014

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली—110003, दिनांक 14 अक्टूबर 2015

सं. ए. 32013/01/2015—स्था-I—राष्ट्रपति निम्नलिखित उपनिदेशकों (वायुयान इंजीनियरी) की उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन बैंड—4, 37,400—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 8,700/— रु. के वेतनमान में कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन में नियुक्ति करते हैं।

क्रम.सं.	अधिकारियों का नाम सर्व/श्री	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	हिल्लोल विश्वास	24.09.2015 (पूर्वाह्न)
2.	सुरेश कुमार सिंह	24.09.2015 (पूर्वाह्न)
3.	अमित गुप्ता	29.09.2015 (पूर्वाह्न)
4.	इंद्रनील चक्रवर्ती	13.10.2015 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त नियुक्तियां डॉ. रमाकांत सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर की गई रिट याचिका (सी) सं. 5802/2015 के नतीजे के अधीन तथा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निदेशों और नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार है।

बी. पटनायक
उपनिदेशक प्रशासन

वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

सं. 32012/5/2009—डीसीएच/स्था. I—राष्ट्रपति, पदोन्नति के आधार पर श्री देवी लाल मीणा को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक 15,600—39,100/— रु. + 5400/— रुपये के ग्रेड पे के पे बैंड—3 में सहायक निदेशक, ग्रेड—। (राजपत्रित समूह 'क') के रूप में नियुक्त करते हैं।

महेश चंद गुप्ता
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

परमाणु ऊर्जा विभाग

(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई—400094, दिनांक 11 सितम्बर 2015

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/3036—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री के. अनंतरामन, वरिष्ठ भंडारी, (वेतन बैंड (पीबी—2) रु. 9,300—34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4,200), केंद्रीय भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी—2) रु. 9,300—34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4,800, में भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, न्यू जर्कोनियम आक्साइड तथा स्पंज प्रोजेक्ट, पलयाकायल में दिनांक 27 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबळे
प्रशासन अधिकारी—III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद—500062, दिनांक 14 अक्टूबर 2015

सं. नाईस/काप्रभ.I/03/48/2295—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती अनीता मुरुगन, निजी सचिव (एनएस) को रु. 4,800/— के ग्रेड पे सहित रु. 9,300—34,800 वेतन बैंड—2 में दिनांक 22.04.2015 के (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी हैसियत में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन.वी.एस.वी. प्रसाद
प्रशासन अधिकारी—III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई—400094, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

सं. भापाबो/भर्ती/2(5)/2015/4594—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने कॉलम सं. 4 में उल्लिखित भारी पानी संयंत्रों में वेतन बैंड रु. 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रु. 5,400/— में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के रूप में दिनांक 1 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं ।

क्र.सं	नाम	कार्य क्षेत्र	नियुक्ति का स्थान	सिफारिश की गई वेतन वृद्धियों की संख्या	आरंभिक वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	मोहम्मद शाहिद	यांत्रिक	भापासं (मणुगुरु)	02	रु. 16,860/— + ग्रेदे रु. 5,400/—
2.	सूमीत हीरा	रसायन	भापासं (कोटा)	03	रु. 17,490/— + ग्रेदे रु. 5,400/—
3.	पवि गुप्ता	रसायन	भापासं (कोटा)	03	रु. 17,490/— + ग्रेदे रु. 5,400/—
4.	प्रज्ञान्दिती दाश	एनएफसीसी	भापासं (बड़ोदा)	03	रु. 17,490/— + ग्रेदे रु. 5,400/—
5.	कोमेरा वेंकटेश्वरलु	एनएफसीसी	भापासं (तूतीकोरिन)	02	रु. 16,860/— + ग्रेदे रु. 5,400/—

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)—म/2015/4601—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती नीता किशोर राठोड, सहायक (पीबी - 2 रु. 9,300—34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4,600), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक. 08.09.2015 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड—2 रु. 9,300—34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

सं. क.र./प०.बं०./एफटीई/560/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 49 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं ।

क्र. सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U70101WB1948PTC017141	वेस्ट बंगाल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U32108WB2009PTC132237	यूनिक हीट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	U70109WB2012PLC184544	यूनिफी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
4	U26931WB2012PTC183995	अर्घा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U28999WB1998PTC086388	हँस टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
6	U45400WB2012PTC187749	पिनसेफ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U52100WB2012PTC187750	शिव राशि गुड्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U74140WB2011PTC170564	मुक्ता फाइनेंसियल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	U30007WB1998PTC087577	स्काइनेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. स.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
10	U24119WB1983PTC036514	सात्विक रसायन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
11	U74999WB2012PTC185918	लिटल पिगिस ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	U55101WB2009PTC138221	सिल्वर ओक रेस्टूरेंट एंड हॉटेलियर प्राइवेट लिमिटेड
13	U55101WB2009PTC138671	एलए इंपिरिया रेस्टूरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U24232WB2012PTC183203	एपिंग फार्मासीयूटिकल् प्राइवेट लिमिटेड
15	U74140WB2012PTC181056	एसएसडीएस फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U64204WB2014PTC204507	ईशिका सम्राट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U51909WB2013PTC192605	श्रीशिवासाई एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
18	U51101WB2010PTC144904	ब्लूटूथ डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U51101WB2010PTC144899	कॉर्नफ्लावर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U24232WB1970PTC027725	न्युट्री थेरा लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
21	U14106WB1919PTC003321	देहरी लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
22	U51909WB2011PTC161881	बेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
23	U74210WB2007PLC120195	ओक्टावियस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस इन्फ्राटेक लिमिटेड
24	U45400WB2008PTC130406	लिटल वार्डरोब प्राइवेट लिमिटेड
25	U74900WB2008PTC123805	सनव्यू मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
26	U74900WB2009PTC134301	सस्टेनेबल रेसोर्सेस एंड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
27	U52190WB2011PTC161129	मित्तल सेफ लाइफ ज़ोन नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड
28	U45400WB2012PTC184117	फॉरमोस्ट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U45400WB2012PTC180471	गुडप्वाइंट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	U45400WB2012PTC188097	ओवरग्रो कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
31	U45400WB2012PTC188049	लिंगलाइक रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड
32	U51101WB2010PTC150015	लीगेसी विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
33	U70109WB2011PTC165140	हरिद्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U70109WB2011PTC163194	लैवेंडर हाई-राइस प्राइवेट लिमिटेड
35	U70109WB2011PTC166828	गल्लीअम रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U70109WB2011PTC169302	हिमानीश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
37	U51101WB2010PTC150024	ओप्टीमिस्टिक विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
38	U85110WB1993PTC061094	प्रांतिक शस्था सदन प्राइवेट लिमिटेड

क्र. स.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
39	U70109WB2011PTC163197	अमरावती रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
40	U70109WB2011PTC163525	देवपुत्र कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U70109WB2011PTC169303	हिमानीश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U25201WB1976PTC030580	रोल्सफ्री कोरेस प्राइवेट लिमिटेड
43	U51909WB2010PTC148599	ओवरग्रो कोमोसेल प्राइवेट लिमिटेड
44	U51909WB2010PTC148718	वनडरफूल डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
45	U74900WB2015PTC205952	रेडरोज़ मॉल प्राइवेट लिमिटेड
46	U51909WB2011PTC160258	अनंत धाम ट्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड
47	U70109WB2011PTC165949	ऋषिकेश प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U70109WB2011PTC165875	देवकिनन्दन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U74999WB2011PTC161306	ऑनेस्ट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स एड्वाइजरी प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में

कटक—753014, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2015/—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5)के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:-

क्र.सं.	पं.सं.	कम्पनी का नाम
1	15-003690	मेसर्स युनीकस् कन्सल्टान्सी एनड् एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	15-010257	मेसर्स दीपासु पावारभिजन् प्राइवेट लिमिटेड
3	15-008174	मेसर्स क्रीसालिज् एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
4	15-009043	मेसर्स तारिणी हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
5	15-007729	मेसर्स मा गायत्री आसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	15-001345	मेसर्स होटेल मनोरमा प्राइवेट लिमिटेड
7	15-015160	मेसर्स मेटाल टेक् इन्डिफाब् प्राइवेट लिमिटेड
8	15-011419	मेसर्स साई आग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	15-007696	मेसर्स सक्ती मानसन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	15-008545	मेसर्स समलेस्वरी बील्डर्स एनड् डेभलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

ए. के. महापात्र
कम्पनी रजिस्ट्रार

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 15th October 2015

No.F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint/ promote the following officers/officials to the post and with effect from the date mentioned against their names:-

S. No	Name	Post to which appointed/promoted & Date
1	Shri S. K. Jaipuriyar, (Officer of Indian Audit and Accounts Service (IA & AS))	Additional Registrar (Finance & Accounts), on deputation basis, initially for a period of one year w.e.f 31-08-2015 (F.N)
2	Shri Vijay Kumar Aggarwal, Assistant Registrar (Non-Shorthand)	Deputy Registrar w.e.f 09-10-2015
3	Shri Ramesh Chander Joshi, Assistant Registrar (Non-Shorthand)	Deputy Registrar w.e.f 09-10-2015
4	Shri Sunil Kumar, Assistant Registrar (Shorthand)	Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-cadre) w.e.f 09-10-2015
5	Shri Anil Kumar, Assistant Registrar-cum-Private Secretary	Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-cadre) w.e.f 09-10-2015
6	Shri Om Parkash, Assistant Registrar-cum-Private Secretary	Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-cadre) w.e.f 09-10-2015
7	Shri Anil Kumar Sharma, Assistant Registrar-cum-Private Secretary	Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-cadre) w.e.f 09-10-2015
8	Shri Anup Kumar Sharma, Branch Officer/ Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f 01-09-2015
9	Ms. Shashi Sareen, Court Master (Shorthand)	Assistant Registrar-cum-Private Secretary w.e.f 08-08-2015
10	Shri Om Parkash Sharma, Court Master (Shorthand)	Assistant Registrar-cum-Private Secretary w.e.f 13-10-2015
11	Shri Sanjay Kumar, Court Master (Shorthand)	Assistant Registrar-cum-Private Secretary w.e.f 13-10-2015
12	Ms. Mohini Bhagchandani, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Branch Officer/ Court Master (Non-Shorthand) w.e.f 01-09-2015(A.N)
13	Shri Kesar Singh, Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books	Branch Officer/ Court Master (Non-Shorthand) w.e.f 01-10-2015

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

No.F.20/2015-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to post Shri T.I. Rajput and Ms. Meena Sarin, Deputy Registrars (Shorthand) (Ex-cadre) as Deputy Registrar in the unified cadre post, with effect from 09-10-2015.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500052, the 1st October 2015

No.15011/10/2015-Estt.—In pursuance of approval of Ministry of Home Affairs conveyed vide ID Note F.No.23011/39/2015-PT dated 09.07.2015, Shri Shrikrishna Tiwari, Scientist-'B', Central Water & Power Research Station, Pune, is appointed as Assistant Director(Wireless) in SVP National Police Academy, Hyderabad, in the pay scale of PB-3:

Rs.15,600 – 39,100/- with Grade Pay of Rs.6600/-, on deputation basis for a period of one year with effect from 28th September, 2015 (FN) or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation, in public interest, as per the provisions contained in MHA Notification No.18/4/51-Estt(B) dated 01.09.1958. Officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

2. Officer will have the option either to draw the pay in his parent scale of pay or the pay in the scale of pay of the deputation post in the Academy i.e. PB-3 Rs.15,600 – 39,100/- + Grade Pay Rs.6,600/- plus allowances as admissible under the relevant GOI rules. The option has to be exercised by the officer, within one month of his joining the post and option once exercised shall be final and binding.

ARUNA BAHUGUNA
Director

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), RAJASTHAN

Jaipur, the 9th October 2015

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122 /2014/D-349—The following Group 'B' Gazetted Officers retired from Government service from the date shown against their names:-

S/Shri

1. Balu Ram Jat Voluntary Retirement wef. 10.09.2015 (AN)
Senior Audit Officer
2. Mukesh Kumar Sharma Retired on superannuation wef. 30.09.2015 (AN)
Senior Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

(OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT), RAJATHAN

Jaipur, the 9th October 2015

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/60/2014/D-117—The following Group 'B' Gazetted Officer retired from Government service from the date shown against his name:-

S/Shri

1. Shrikrishna Retired on superannuation wef. 30.09.2015 (AN)
Audit Officer

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 7th September 2015

No. A-31013/02/2014-E.II.—On successful completion of the probation period of two years, the President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director of Operations, in PB-3 of Rs.15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600/- in the office of the Director General of Civil Aviation, in the substantive capacity with effect from the date mentioned against their names: -

Sl No.	Name S/Shri	Date of confirmation.
1.	Shiv SwaroopTripathi,	30.10.2014
2.	Ravinder Singh Jamwal	01.10.2014
3.	AtulMaindola	30.04.2014
4.	Sunil Rathee	30.05.2014
5.	Rakesh Singh	22.10.2014

Sl No.	Name S/Shri	Date of confirmation.
6.	Chandra Mani Pandey	02.05.2014
7.	Amit Srivastava	11.04.2014

GOPAL SINGH
Dy. Director of Admn.

New Delhi-110003, the 14th October 2015

No. A. 32013/01/2015-E-I.—The President is pleased to appoint the following Deputy Directors (Aircraft Engineering) in the office of Director General of Civil Aviation, on their promotion to the post of Director (Aircraft Engineering) in the scale of pay of Rs. 37,400 – 67,000/- (PB-4) with grade pay of Rs. 8700/- on regular basis with effect from the dates shown against their names:-

Sr. No.	Name of the Officers (S/Sh.)	Date of Joining
1.	Hillol Biswas	24.09.2015 (F.N)
2.	Suresh Kumar Singh	24.09.2015 (F.N)
3.	Amit Gupta	29.09.2015 (F.N)
4.	Indranil Chakraborty	13.10.2015 (F.N)

2. The above appointments are subject to outcome of the Writ Petition (C) No. 5802/2015 filed by Dr. Ramakant Singh in the Hon'ble High Court of Delhi in accordance with directions of the Hon'ble High Court of Delhi and as per approval given by Ministry of Civil Aviation.

B. Pattnaik
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 8th October 2015

No.32012/5/2009-DCH/Estt-I. The President is pleased to appoint Shri Devi Lal Meena as Assistant Director Grade-I (Group 'A' Gazetted) on promotion basis in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400 in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 23rd September, 2015, until further orders.

MAHESH CHAND GUPTA
Addl. Development Commissioner for Handlooms

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai- 400 094, 11th September 2015

No. DPS/07019/Rectt/3036— The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri K. Anantharaman, Sr. Storekeeper (Pay Band (PB-2) Rs. 9300—34800 + Grade Pay Rs. 4200), Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) Rs. 9300—34800 + Grade Pay Rs. 4800/-, in the Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, New Zirconium Oxide & Sponge Project, Pazhayakayal, w.e.f the forenoon of 27th August, 2015, until further orders.

S. Y. KAMBLE
Admn. Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad – 500 062, the 14th October 2015

No. NFC/PAI-I/03/48/2295—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex appoints Smt. Anitha Murugan, Private Secretary (NS) to officiate as Assistant Personnel Officer in temporary capacity in the pay band of PB-2 Rs.9300—34800/- with Grade Pay of Rs.4800/- with effect from 22.04.2015 (F/N) until further orders.

N.V.S.V. PRASAD
Admn. Officer – III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 6th October 2015

No. HWB/R/2(5)/2014/4594—The President is pleased to appoint the following persons as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the pay band of Rs.15600-39100 + Grade pay of Rs.5400/- in Heavy Water Plants mentioned against each at column No. 4 with effect from the forenoon of August 01, 2013 in a temporary capacity until further orders:

Sr. No.	Name S/Shri	Discipline	Place of Appointment	No. of Increments recommended	Initial pay
1	2	3	4	5	6
1.	Md. Shahid	Mechanical	HWP (Manuguru)	02	Rs. 16860/- + GP Rs. 5400/-
2.	Sumeet Heera	Chemical	HWP (Kota)	03	Rs. 17490/- + GP Rs. 5400/-
3.	Kum. Pavi Gupta	Chemical	HWP (Kota)	03	Rs. 17490/- + GP Rs. 5400/-
4.	Kum. Pragyanditi Dash	NFCC	HWP (Baroda)	03	Rs. 17490/- + GP Rs. 5400/-
5.	Komera Venkateswarlu	NFCC	HWP (Tuticorin)	02	Rs. 16860/- + GP Rs. 5400/-

K.S. PILLAI
Admn. Officer-III

No. HWB/R/1(8)-M/2015/4601—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Neeta Kishor Rathod, Assistant (Pay Band-2 Rs. 9300—34800 + Grade Pay of Rs. 4600), DAE, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 8th September, 2015 until further orders.

K.S. PILLAI
Admn. Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 16th October 2015

No.ROC/WB/FTE/560/2015— Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 49 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved:-

SL. No.	CIN	Name of the Company
1	U70101WB1948PTC017141	WEST BENGAL STORES (P) LTD
2	U32108WB2009PTC132237	UNIQUE HEAT HANDLING PRIVATE LIMITED
3	U70109WB2012PLC184544	UNIFI INFRAPROJECTS LIMITED
4	U26931WB2012PTC183995	ARGHA BUILDERS PRIVATE LIMITED

SL. No.	CIN	Name of the Company
5	U28999WB1998PTC086388	HANS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
6	U45400WB2012PTC187749	PINNSAFE PROJECTS PRIVATE LIMITED
7	U52100WB2012PTC187750	SHIV RASHI GOODS PRIVATE LIMITED
8	U74140WB2011PTC170564	MUKTA FINANCIAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
9	U30007WB1998PTC087577	SKYNET SYSTEMS PRIVATE LIMITED
10	U24119WB1983PTC036514	SATVIK RASAYAN UDYOG PVT LTD
11	U74999WB2012PTC185918	LITTLE PIGGIES TRADELINK PRIVATE LIMITED
12	U55101WB2009PTC138221	SILVER OAK RESTAURANT & HOTELIER PRIVATE LIMITED
13	U55101WB2009PTC138671	LA IMPERIA RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
14	U24232WB2012PTC183203	EPIGE PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
15	U74140WB2012PTC181056	SSDS FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
16	U64204WB2014PTC204507	ISHIKA SAMRAT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
17	U51909WB2013PTC192605	SRISHIVASAI EXIM PRIVATE LIMITED
18	U51101WB2010PTC144904	BLUETOOTH DEALERS PRIVATE LIMITED
19	U51101WB2010PTC144899	CORNFLOWER DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
20	U24232WB1970PTC027725	NUTRI THERA LABORATORY PVT LTD
21	U14106WB1919PTC003321	DEHRI LIME CO PVT LTD
22	U51909WB2011PTC161881	BETA DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
23	U74210WB2007PLC120195	OCTAVIUS CONSULTING ENGINEERING SERVICES INFRATECH LIMITED
24	U45400WB2008PTC130406	LITTLE WARDROBE PRIVATE LIMITED
25	U74900WB2008PTC123805	SUNVIEW MERCANTILE PRIVATE LIMITED
26	U74900WB2009PTC134301	SUSTAINABLE RESOURCES AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	U52190WB2011PTC161129	MITTAL SAFE LYFE ZONE NETWORKING PRIVATE LIMITED
28	U45400WB2012PTC184117	FOREMOST INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
29	U45400WB2012PTC180471	GOODPOINT HOUSING PRIVATE LIMITED
30	U45400WB2012PTC188097	OVERGROW CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
31	U45400WB2012PTC188049	LINKLIKE REALCON PRIVATE LIMITED
32	U51101WB2010PTC150015	LEGACY VINTRADE PRIVATE LIMITED
33	U70109WB2011PTC165140	HARIDRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
34	U70109WB2011PTC163194	LAVENDER HI-RISE PRIVATE LIMITED
35	U70109WB2011PTC166828	GALLIUM REALTORS PRIVATE LIMITED
36	U70109WB2011PTC169302	HIMANISH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
37	U51101WB2010PTC150024	OPTIMISTIC VINIMAY PRIVATE LIMITED
38	U85110WB1993PTC061094	PRANTIK SHASTHA SADAN PVT LTD
39	U70109WB2011PTC163197	AMARAVATI REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
40	U70109WB2011PTC163525	DEVPUTRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

SL. No.	CIN	Name of the Company
41	U70109WB2011PTC169303	HIMANISH PROJECTS PRIVATE LIMITED
42	U25201WB1976PTC030580	ROLSFRI CORES PVT LTD
43	U51909WB2010PTC148599	OVERGROW COMMOSALE PRIVATE LIMITED
44	U51909WB2010PTC148718	WONDERFUL DEALCOM PRIVATE LIMITED
45	U74900WB2015PTC205952	REDROSE MALL PRIVATE LIMITED
46	U51909WB2011PTC160258	ANANT DHAM TRACOM PRIVATE LIMITED
47	U70109WB2011PTC165949	HRISHIKESH PROMOTERS PRIVATE LIMITED
48	U70109WB2011PTC165875	DEVAKINANDAN REALTORS PRIVATE LIMITED
49	U74999WB2011PTC161306	HONEST INFRAPROJECTS ADVISORY PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Dy. Registrar of Companies,
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Cuttack-753014, the 9th October 2015

No. ROC/FTE/Sec. 560(5)/2015 —Notice is hereby given pursuant to Sub- section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved:-

Sl No.	No. of comp	Name of company
1	15-003690	UNICUS CONSULTANCY AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
2	15-010257	DEEPASHU POWERVISION PRIVATE LIMITED
3	15-008174	CHRYSLIES EXPORT IMPORT PRIVATE LIMITED
4	15-009043	TARINI HYDRO ENERGY PRIVATE LIMITED
5	15-007729	MAA GAYATREE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
6	15-001345	HOTEL MANORAMA PRIVATE LIMITED
7	15-015160	METAL TECH INDFAB PRIVATE LIMITED
8	15-011419	SAI AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
9	15-007696	SHAKTI MANSIONS PRIVATE LIMITED
10	15-008545	SAMALESWARI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

A.K. MAHAPATRA
ROC-cum-OL, Odisha

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2015
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in